







Ref: RailTel/Sectt/21/SE/S-16 Date: August 09, 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग,पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, किला, मुंबई - 400 001

Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 Scrip Symbol- RAILTEL Corporate Relationship
Department, BSE Limited, Rotunda
Building, P J Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400001

Scrip Code- 543265

Sub: Copy of Newspaper publications of Public Notice of 23rd Annual General Meeting through VC/OAVM.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of clippings of Newspaper publications made after dispatch of notice of 23nd Annual General Meeting and Annual Report of the Company. The notice was published in newspaper (English and Hindi daily) on 9th August, 2023.

- 2. The above-mentioned publications are also made available at the website of the Company at www.railtelindia.com.
- 3. Please take note of the above information on record.

धन्यवाद,

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

जे. एस. मारवाह कंपनी सचिव एव अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या – एफ सी एस 8075

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

वितरण:- 1) सहायक कंपनी सचिव को फाइल में रखने हेतु।

2) सहायक महाप्रबंधक/पी.आर.ओ.को वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) RailTel Corporation of India Ltd. (A Government of India Undertaking)

CIN: L64202DL2000GOI107905

Registered & Corporate Office: Plate-A, 6th Floor, Office Block-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, T: +91 11 22900615, F: +91 11 22900699

Website: www.railtelindia.com



RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) CIN: L64202DL2000GOI107905

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Website: www.railtelindia.com, E-mail: cs@railtelindia.com Tel: +91 11 22900600, Fax: +91 11 22900699



NOTICE OF THE 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING Notice is hereby given that the 23rd (Twenty-Third) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, 31st August, 2023 at 11:30 Hrs through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated 05/05/2020 and subsequent circulars and the latest being, Circular No. 10/2022 dated 28/12/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11/07/2023 issued by the Securities Exchange Board of India

In line with the aforesaid Circulars, the Notice of 23rd AGM and Annual Report of the Company for the

In line with the aforesaid Circulars, the Notice of 23rd AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 have been sent through electronic mode on 07th August, 2023 to those members whose e-mail ID(s) were registered with the Depository Participant (DP) or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company as on Friday, 28th July, 2023. The same is also hosted on the website(s) of the Company (www.raitelindia.com), Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and NSDL (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and NSDL (<a href="www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (<a href="www.nseindia.com) and NSDL (<a href="www.bseindia.com), National Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchanges i.e. BSE Limited (<a href="www.bseindia.com), National Stock Exchanges i.e. BSE Limited (<a href="www.bseindia.com), National Stock Ex e-voting during the AGM through VC/OAVM.
Members are hereby informed that:

Members are hereby informed that:

(i) The remote e-voting period commences on Sunday, 27th August, 2023 (9:00 AM) (IST) and ends on Wednesday, 30th August, 2023 (5:00 PM) (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and shall not be allowed beyond said date and time.

(ii) A person whose name is registered as member in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 24th August, 2023 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-Voting system during the AGM.

(iii) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on cut-off date may obtain the login id and password by sending request along with their shareholding details to evoting@nsdl.co.in

(iv) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Once a vote on a resolution is submitted by the member through e -voting the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com.

member through e –voting the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com. (v) Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

Members are requested to refer to Instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. If you have any queries or issues regarding attending AGM & E-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section'. You can also contact NSDL at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or Ms. Pallavi Maharte, Sr. Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: (evoting.gon.nsdl.co.in) who will address the grievances related to electronic voting.

For RailTel Corporation of India Limited For RailTel Corporation of India Limited Sd/-

Date: 08/08/2023 E-Mail: cs@railtelindia.com Phone: +91 11 22900600 Fax: +91 11 22900699

(J.S Marwah) Company Secretary and Compliance Officer

RAJSHREE SUGARS & CHEMICALS LIMITED

Regd Office: 'The Uffizi', 338/8, Avanashi Road, Peelamedu, Coimbatore - 641 004 Tel (0422) 4226222 Fax (0422) 2577929 CIN: L01542TZ1985PLC001706 E-Mail: rscl@rajshreesugars.com Website: www.rajshreesugars.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2023 (₹ in Lakhs)

SL	Particulars		s Ended idited)	Year Ended (Audited)
No	r artiodiare	30.6.2023	30.6.2022	31.3.2023
1.	Total Income from operations	22,892.15	22,531.49	77,395.17
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	853.38	(1,141.05)	2,073.27
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after Exceptional items)	853.38	(1,141.05)	2,073.27
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax and Exceptional items)	853.38	(1,141.05)	(896.86)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	853.38	(1,141.05)	(972.47)
6.	Paid-up equity share capital (Face value of Rs.10/-pershare)	3,313.56	3,313.56	3,313.56
7.	Reserves (excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year)		_	(1,094.31)
8.	Earnings Per Share (not annualized) (of Rs. 10/- each)			
	a) Basic	2.58	(3.44)	(2.71)
	b) Diluted	2.58	(3.44)	(2.71)

Note:The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.rajshreesugars.com

Place : Coimbatore Date: 7.8.2023

R. VARADARAJAN Wholetime Director DIN:00001738

RESONANCE SPECIALTIES LIMITED

(CIN No. L25209MH1989PLC051993)

REGD. OFFICE: 54-D, Kandivli Industrial Estate, Charkop, Kandivlali (West) MUMBAI 67,
Website: www.resonancesl.com TEL: 022 6857 2827 GST No-27AAACA9590Q1ZW Email: company.secretary@resonancesl.com FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

		Quarter Ended		Year Ended
Particulars .	30-06-2023 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)*	30-06-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)
Total Income from operations	1,346.12	1,837.75	1,591.17	5,881.46
Net Profit / (Loss) for the period				
(Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items)	131.06	155.46	207.37	685.14
Net Profit / (Loss) for the period				
(before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items)	131.06	155.46	207.37	685.14
Net Profit / (Loss) for the period				
(after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items)	87.48	123.75	151.54	500.13
Compenhsive income for the period (Comprising profit & loss) for				
the period(after tax) and other comprehensive income (after tax)	87.55	121.39	149.01	504.42
Equity Share Capital	1,154.40	1,154.40	1,154.40	1,154.40
Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the				
Audited Balance sheet of the previous year				3,851.65
Earning per Shares (of Rs 10/-each)				
(for continuing and discontinued operations)- (basic & Diluted)	0.76	1.05	1.29	4.37
	Total Income from operations Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Compenhsive income for the period (Comprising profit & loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the Audited Balance sheet of the previous year Earning per Shares (of Rs 10/-each)	Total Income from operations Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Compenhsive income for the period (Comprising profit & loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the Audited Balance sheet of the previous year Earning per Shares (of Rs 10/-each)	Particulars 30-06-2023 31-03-2023 (Audited)* Total Income from operations Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Compenhsive income for the period (Comprising profit & loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the Audited Balance sheet of the previous year Earning per Shares (of Rs 10/-each)	Total Income from operations Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Excepetional and /or Extra ordinary items) Compenhsive income for the period (Comprising profit & loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Reserves (Excluding Revaluation reserve as shown in the Audited Balance sheet of the previous year Earning per Shares (of Rs 10/-each)

Notes: The financial results of the Company have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules 2015 (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

The above results have been reviewed by the audit committee and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on 8th August, 2023.

In accordance with Ind AS-108 "Operating Segments", the company has only one reportable primary business segment i.e. "Chemical Manufacturing". However, the company has secondary geographical segment which is disclosed in the financia statement as per Ind AS- 108.

Information about secondary geographical segments as per financial statements (Rs. In Lakhs) Particulars April to June 23 April to June 22 Segment Revenu - India 629 64 576.77 716.48 Outside India 1.014.40 Total 1,346.12 1.591.17

The segment asset and segment capital expenditure attributable to the segment "Outside India" is less than 10% of the respective total assets and total capital expenditure and therefore not disclosed separately.

*The figures for the guarter ended March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financia year ended March 31, 2023 and unaudited year -to- date figures up to the third quarter ended December 31, 2022 which were subjected to limited review

The figures for the previous financial period have been regrouped/rearranged wherever necessary.

By the order of the Board For RESONANCE SPECIALTIES LIMITTED Charchit Jair

Place : Mumbai Whole Time Director Date: 8th August, 2023 DIN: 09344495

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L65993WB1983PLC035 Registered Office: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata, West Bengal 700 083 India

Corporate office: Hall No-1, M R Icon, Next to Milestone Vasna Bhayli Road, Vadodara 391 410, Gujarat, India Contact Details: +91 7203948909 | Website: www.miflindia.com | Email Address: compliance@miflindia.com

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 40thAnnual General Meeting (AGM) of the Members of **MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED** will be held on Saturday, 02nd September, 2023 at 03.30 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Annual Report along with Notice convening AGM on 08th August, 2023, through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/ Company's Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd., ("RTA" in accordance with the pursuant to General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 read with General Circular No 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 8, 2021 and 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021,and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by The Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEB Circulars"). The Annual Report along with the Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at www.miflindia.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE limited at www.bseindia.com and on the NSDL's website at www.evoting.nsdl.com

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of The Companies Act, 2013; the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed on 26th August, 2023 to 02nd September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of The Companies Act, 2013 and Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by the RTA on all resolutions as set forth in the AGM Notice. The voting rights of the members shall be in proportion to the Equity Shares held by them in the paid-up Equity Share capital of the Company as on 26th August, 2023 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Wednesday, 30th August, 2023 at 9.00 a.m. and will end on Friday, 01st September, 2023 at 5.00 p.m. During this period the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/QAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Members holding Shares in physical form who have not registered their ema address are requested to register their email addresses with respective depository participants and are requested to update their email addresses with Company' Registrar and Share Transfer Agent, Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd, temporarily update their email address by accessing the lin https://www.purvashare.com/email-and-phone-updation/ for updating of e-mail ID and contact number and obtain Notice, Annual Report 2022-2023 and/or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting.

Members are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice o the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, Manner of casting vote through Remote e-voting or e-voting during AGM

Any query or grievance in relation to voting by e-voting can be addressed to the NSDL or Registrars of the Company **M/s. Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd** car be forwarded at email: evoting@nsdl.co.in or support@purvashare.com

For Mangalam Industrial Finance Limite

Sakina Lokhandwal Date: 08-08-2023 **Company Secretary**



(CIN L17120MH1958PLC011045) Registered Office: Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063. Tele No.: + 91 (022) 4028 1919 / 2685 2257 / 58 / 59 Fax No.: + 91 (022) 4028 1940 Email: info@nirlonltd.com. Website: www.nirlonltd.com

					(₹ in Lakhs
			Quarter ended		Year ended
Sr.	Particulars Particulars	30-Jun-2023	31-Mar-2023	30-Jun-2022	31-Mar-202
No.	railiculais	Unaudited	"Audited (Refer Note 3)"	Unaudited	Audited
1	Income:				
	(a) Revenue from operations	14,825.61	14,812.11	13,821.69	57,264.8
	(b) Other income	80.66	35.65	75.97	296.0
	Total income	14,906.27	14,847.76	13,897.66	57,560.8
2	Expenses:				
	(a) Employee benefits expense	139.90	110.25	126.66	502.1
	(b) Finance costs (Refer Note 4)	3,014.80	2,932.74	4,776.96	12,568.1
	(c) Depreciation and amortisation expenses (Refer Note 5)	1,384.07	1,490.73	3,686.08	10,277.5
	(d) Property Management Expenses	1,078.91	1,407.28	913.39	4,459.5
	(e) Other expenses	2,000.63	1,634.24	2,091.24	6,499.8
	Total expenses	7,618.31	7,575.24	11,594.33	34,307.2
3	Profit before tax (1-2)	7,287.96	7,272.52	2,303.33	23,253.6
4	Tax expense				
	-Tax expense	2,309.94	2,301.12	881.34	7,462.0
	Total tax expense	2,309.94	2,301.12	881.34	7,462.0
	Profit after tax (3-4)	4,978.02	4,971.40	1,421.99	15,791.6
6					
	Items that will not be reclassified to profit and loss (net of tax)	-	21.45	•	21.4
	Total comprehensive income (5+6)	4,978.02	4,992.85	1,421.99	15,813.1
8	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10/- per share)	9,011.80	9,011.80	9,011.80	9,011.8
9	Other Equity				31,168.1
10	Earnings per share (EPS) of ₹ 10/- each (not annualised)				
	(a) Basic (₹)	5.52	5.52	1.58	17.5
	(b) Diluted (₹)	5.52	5.52	1.58	17.5

Notes :

been disclosed

Place: Mumbai

- The results of the guarter ended June 30, 2023 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on August 8, 2023.
- The Company has determined "licensing of investment properties" as a reportable segment as evaluated by the chief operating decision makers for allocation of resources and assessing the performance. There are no other reportable segment as per Ind AS 108-Operating Segment. Accordingly, no segment information has
- The figures for quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and unaudited published year to date figures upto December 31, 2022 which were subje-
- During the quarter ended June 30, 2022, the Company has entered into a term loan agreement with the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited for an aggregate sum of up to ₹ 1,23,000.00 Lakhs. The proceeds from the said loan has been used to repay the existing loan of ₹ 1,17,986.57 Lakhs availed by the Company from HDFC Limited along with prepayment and other related charges amounting to ₹2,507.25 Lakhs which has been recognized as finance cost in the financial results.
- The Company has changed its method of depreciation from written down value method to straight-line method w. e. f. October 1, 2022. Accordingly, depreciation is lower and net profit before tax is higher by ₹ 2409.15 Lakhs and ₹ 4817.03 Lakhs for the quarter and year ended March 31, 2023 respectively.

For and on behalf of the Board of Directors

NIRLON LIMITED RAHUL V. SAGAR **Executive Director & CEO**

Date : August 08, 2023 DIN: 388980

emami realty limited

CIN: L45400WB2008PLC121426

Regd Office: Acropolis, 13th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata – 700107

Extract of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023

		Stan	dalone			(**************************************		
Particulars	For the Quarter Ended		For the Year Ended	For the Quarter Ended			For the Year Ended	
	30-06 2023	31-03-2023	30-06-2022	31-03- 2023	30-06 2023	31-03-2023	30-06-2022	31-03- 2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	1,011	2,188	3,091	6,742	1,303	2,630	4,254	9,615
Net Profit/(Loss) before taxes	(1,970)	(2,430)	5	(5,838)	(1,921)	(2,405)	183	(5,471)
Net Profit/(Loss) after taxes	(1,473)	(1,797)	8	(4,385)	(1,436)	(1,530)	141	(3,863)
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss)								
after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(1,473)	(1,794)	8	(4,382)	(1,436)	(1,527)	141	(3,860)
Equity Share Capital	757	757	757	757	757	757	757	757
Reserves excluding Revaluation Reserves	-	-		8,531		-	-	7,961
Earnings per share (of ₹2/- each) (Not annualised):								
(a) Basic (₹)	(3.89)	(4.75)	0.02	(11.59)	(3.79)	(4.04)	0.37	(10.21)
(b) Diluted(₹)	(3.89)	(4.75)	0.02	(11.59)	(3.79)	(4.04)	0.37	(10.21)
Notes:								

(a) The above Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 7th August, 2023. The Statutory Auditors of the Company have reviewed these results as required under Regulation 33

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website

For and on behalf of the Board of Directors Dr. Nitesh Kumar Gupta Kolkata Managing Director & CEO



7th August, 2023

GEECEE VENTURES LIMITED

CIN: L24249MH1984PLC032170

Regd. Office: 209-210, Arcadia Building, 2nd Floor, 195, Nariman point, Mumbai- 400 021. Tel. No. 91-22-4019 8600. Fax No. 91-22-4019 8650; Email: geecee.investor@gcvl.in Website: www.geeceeventures.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In Lakhs, except per share data) Standalone Consolidated Year ended Quarter ended Quarter ended Year ended **Particulars** 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 1.045.14 1.236.19 3.867.67 1.128.20 1.306.31 4.136.27 Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 625.76 622.25 1.213.16 694.56 680.35 1.434.66 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 625.76 622.25 1,213.16 694.56 680.35 1.434.66 Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) 508.23 510.56 981.96 568.46 565.23 1,160.17 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period 2.695.86 2.074.37 2.797.54 2,381.13 419.76 277.50 (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 2,091.17 2,091.17 2,091.17 2,091.17 2,091.17 2,091.17 51.143.65 54.015.79 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -Before Extra- Ordinary items 5.55 5.55 2.43 2.43 2.71 2.71 2. Diluted:

Notes:

- (a) The above unaudited financial results was reviewed by the Audit Committee at their meeting held on August 07, 2023 and the same has been approved by the Board of Directors at its meeting held on August 07, 2023 .The above results have been subject to limited review by the Statutory Auditor of the Company.
- (b) The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment Rules), 2016.
- (c) Since the nature of Real Estate & Financial Service Business of the Company is such that profit/(loss) does not necessarily accrue evenly over the period, the result of the quarter/ period may not be representative of the profit/(loss) for the quarter/period.
- (d) Since there is Loss from Investments during the quarter ended 31st March, 2023 mainly on account of Market toss on Equity Shares on Investments which are fair valued through Profit & Loss Account (FVTPL) as per Ind AS, hence it is shown as an Item of Expenditure in the Results for the quarter ended 31st March, 2023.
- (e) The previous period / year figures have been regrouped and reclassified, where necessary, to make them comparable with current period / year figures.
- The Renewable energy segment has been withdrawn pursuant to application of paragraph 11-Reportable Segments read with paragraph 13 of Indian Accouting Standard (Ind AS) 108-Operating Segments.

(g) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for Quarter ended June 30, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges BSE Limited (www.bseindia.com) or that of National Stock Exchange of India Limited(www.nseindia.com) and also on Company's Website (www.geeceeventures.com). For GeeCee Ventures Limited

Mr. Sureshkumar Vasudevan Vazhathara Pillai Whole Time Director (Din: 00053859)

DIN: 08756907

Place: Mumbai Date: August 07, 2023



रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन: L64202DL2000GOI107905 पंजीकृत व कांपीरेट कार्यालय: प्लेट-ए, छठा तल, ऑफिस ब्लॉक, टॉवर -2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली -110023, **वेबसाइट**: www.railtelindia.com, **ईमेल**: cs@railtelindia.com फ़ोन: +91 11 22900600 , **फैक्स**: + 91 11 22900699

23 वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

८५ वा वाषिक आम बठक आर ई-वांटिंग की सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में अन्य आंडियो विजुअल सीधन ("अएविएम") सामान्य परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 05/05/2020 और उसके बाद के परिपन्नों के साथ पढ़ें और नवीनतम है, कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपन्न संख्या 10/2022 दिनांक 28/12/2022 और मास्टर परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी/अडीआईआर/पी/2023/120 दिनांकित 11/07/2023 भारतीय प्रतिभित्त विनिमय बोर्ड ("सेबी") के अनुसार एतदद्वारा सूचना दी गई है कि कंपनी के सदस्यों की 23वीं (तेईसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 31 अगस्त, 2023 को 11:30 बजे वीडियों कोन्फ्रेसिंग ("वीसी") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

भारतीय प्रातभात (वानमय बाड ('सबा') के अनुसार एत्दद्वारा सूचना दे गुड़ है कि कपना के सदस्या की 23वा (तइसवा) वाषिक आम बैठक ('एजीएम') पुरुवार, 31 अगस्त, 2023 को 11:30 बजे वीडिया कांन्फ्रीसँग ('विसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप, 23वीं वार्षिक बैठक की सूचना और वितीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (उपि)) के पास शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटिए) पास पंजीकृत थी। इसे कंपनी की विस्ताइट (www.neallelindia.com), रहांक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (www.neallelindia.com), रहांक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (www.neallelindia.com) अगेर एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com).पर भी होस्ट किया गया है। से (एलओडीआर) विनयम, 2015 के विनयमन 44, कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी ने दरस्थ ई-वीटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। कंपनी वार्षिक अग्न बैठक की सूचना में निर्धार्त व्यवसाय पर रिपोर्ट के साथ-साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वीटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। स्वर्धन के पत्रवार, 27 अगस्त, 2023 (शाम 5:00 बजे) (आइएसटी) को समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वीटिंग मोडबूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त तिये और समय से आंग अनुमित नहीं दी जाएगी।

(ii) एक व्यक्ति जिसका नाम कर-ऑफ विधि यानी गुरुवार, 24 अगस्त, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभाईी मालिकों के रिजस्टर में सदस्य के रूप में पजिल्त है, केवल दूरस्थ ई-वोटिंग मोडबूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त तिये और समय से आंग अनुमित नहीं दी जाएगी।

(iii) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कर-ऑफ विधि यानी गुरुवार, 24 अगस्त, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभाईी मोलिकों के रिजस्टर में सदस्य के रूप में पत्रवार के स्वर्व के साध्यम में मालिकों के रिजस्टर में सदस्य के रूप में प्रवार के स्वर्व हैं। की सुविध का लाभ उठाने या वार्ष के आम बैठक के दौरान ई-वीटिंग प्रणाली के साध्यम से मालिकों के रिजस्टर होगा।

(iii) को इस्टर के किया के साथ के स्वर्व के स्वर्व के साथ स्वर्व के स्वर्य में सिर्य में सिर्य के स्वर्य के स्वर्य में सिर्य के स्वर्य में सिर्य क

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के लिए हस्ता /-(जे.एस.मारवाह) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी हिनासा.00/00/2020 ई-मेल: <u>cs@railtelindia.com</u> फोन: +91 11 22900600 फ़ैक्स : +91 11 22900699

थान: नई दिल्ली देनांक:08/08/2023

न्स विराटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, एक्सिस बैंक लि., बीएफ-1ए, 2, 3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेंटर, नीति खण्ड-विश्वापुराज, नाएडा (उ.स.)-२८(१३), एक्सिस बंग कि., बार्ट्स-१८, २, ५, प्रमा कि. तीर्ट, विश्वापुराज, नार्वियाबाद-२०(११)ट, एक्सिस केंकि. कि. 7वां तल, विश्व-१८ स्वापुराज, वार्वियाबाद-२०(११)ट, एक्सिस केंकि. कि. 7वां तल, विश्व-१८ स्वापुराज, विश्व-१८ पुराज, विश्वस्य वेंकि कि., हिमालय हाउस, उसरी भू तल एवं प्रथम तल, कस्तुरवा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, नर्स दिल्ली - 110001 कार्यालय - एक्सिस केंकि कि. एक्सिस हाउस, ठॉवर टी-२, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विश्वायाज, नोएडा (उ.प.)-२०(१३०)। निगमित कार्यालय : क्लॉक-बी, बांबे डाईण मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400 025, पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेहवर मंदिर

भांग सूचना
जैसा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड से यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारटरों/बंधककर्ताओं ने वितीय सहायता प्राप्त की थी। हमारा कहना है कि वितीय
सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी ऋणधारकों/गारटरों/बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार व्याज तथा मूलधन के प्रतिमुगतान में विभिन्न कूमें की हैं। और इसीलिए,
खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर अन्यायनीय परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया
है, जिसके परिमास्त्रका, त्युरांत एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों ने वितीय परिसम्पत्ति के अंतर्गत रूप स्वाप्ति के रूप में अधिनय अधिनयम
2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रतत्त शक्तियम
संबंधित तिथियों पर सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचनाएं निर्गत की थीं, तिम्में निम्निरिश्चित ऋणधारकों, गांरटरों/बंधककरांओं को सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, भुगतान की तिथि तक आकरिसक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर आगे के व्याज के साथ सूचनाओं में अंकित राशि का प्रतिमुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक एवं गारंटर का नाम एवं पता	प्रतिमृत परिसंपत्तियों का संपत्तिगत पता	सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि (रु.)	एनपीए तिथि मांग सूचना की तिथि ऋण राशि (रु.)
श्रीमती संध्या नागोरी पत्नी श्री पंकज नागोरी, निवासी- पत्नैट नंबर ओसी-5/601, टावर-5, ऑरेंज काउंटी, अहिंसा खंड-1 इंदिरापुरम गाजियाबाद-201014, अन्य पता : श्रीमती संध्या नागोरी, निवासी- 320, वार्ड नंबर- 27, दि- गिर्वा, उदयपुर, राजस्थान - 313001। अन्य पता : श्रीमती संध्या नागोरी (अध्यक्ष) नक्षत्र	प्लॉट सं. 320. कुल क्षेत्रफल अधिमापन 1470 वर्ग फुट, जो पनरियां की माद्री हिरण मगरी, संकटर—6 उदयपुर, राजस्थान में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है: — उत्तर— स्वामित्व विलेख के अनुसार, पूर्व— स्वामित्व विलेख के अनुसार, परिसम— स्वामित्व विलेख के अनुसार, दक्षिण — स्वामित्व विलेख के अनुसार,	(रुपये बत्तीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ बयासी	08-जून-2023 13-जुलाई-2023 रु. 35,00,000 / -

मुप ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग, ई-113, सेक्टर-6, नोएडा, उ.प्र.-201301, 2- श्री पंकज नागोरी पुत्र श्री कन्हैया लाल नागोरी, निवासी : फ्लैट नं. ओसी-5/601, टॉक्र-5, ऑरेंज काउंटी, अहिंसा खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014, अन्य पता : श्री पंकज नागोरी, निवासी- 320, वार्ड नं. 27, दि गिर्वा, उदयपुर, राजस्थान-313001 श्री गौतम अग्रवाल पत्र श्री राजेंद्र किशोर अग्रवाल. ₹. 64,74,965 /

नित्त प्रवास पुत्र व प्राप्त स्थाप क्षिप्त स्थाप स्था 18-जलाई-2023 जो ब्लॉक-बी, सेक्टर-49. जिला-गौतमबुद्ध नगर में स्थित है जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 113.2 वर्ग मीटर है तथा जो लाख चौवहत्तर ₹. 62,62,294 / प्लॉट नंबर 60 ए, ब्लॉक बी, सेक्टर–49, नोएडा, यूपी–201301, अन्य पता : श्री गौतम अग्रवाल निम्नानसार परिसीमित है: उत्तर- साइट के पैंसठ मात्र) अनुसार, पूर्व- साइट के अनुसार, पश्चिम-साइट के अनुसार, दक्षिण- साइट के अनुसार मैसर्स एमआरजी टेडर्स जी/एफ-434/1 गली शीश महत, सीता राम बाजार दिल्ली-110006, 2. श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री राजेंद्र किशोर अग्रवाल, मकान नंबर 297, आम्रपाली अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 56, आईपी एक्सटेंशन, बाल्को मार्केट, पटपड़गंज

दिल्ली—110092, अन्य पता : श्रीमती ममता अग्रवाल प्लॉट नंबर 60 ए, ब्लॉक बी, सेक्टर—49, नोएडा, यू.पी.—201301, अन्य पता : श्रीमती ममता अग्रवाल मैसर्स एमआरजी

П	ट्रंडस जो / एफ-434 / 1, गेला शाशमहल, साता राम बाजार ।दल्ला-110006							
П	मैसर्स जीटीएम कंसल्टिंग अपार्टमेंट नं. 404, ब्लॉक	अपार्टमेंट नं. 404, चतुर्थ तल,	₹. 35,97,777.43 /-	30-जून-2023				
П	नं.—21, चतुर्थ तल, फेज—2, हेरिटेज सिटी, गुड़गांव		(रुपये पैंतीस	18—जुलाई—2023				
П	122002, अन्य पता : श्री राहुल चौधरी, मकान	गुड़गांव 122002	लाख सत्तानबे	₹. 80,00,000 /-				
П	नंबर–404 / 21, हेरिटेज सिटी, सरहौल, गुड़गांव		हजार सात सौ	(रुपये अस्सी लाख मात्र)				
П	122002, अन्य पता : मैसर्स जीटीएम कंसल्टिंग		सतहत्तर एवं तैंतालिस पैसे मात्र)					
П	प्राइवेट लिमिटेड अपार्टमेंट नंबर 404, चतुर्थ तल,		ततालस पस मात्र)					
П	ब्लॉक—21, हेरिटेज सिटी, फेज—2, गुड़गांव 122002							
П	मैसर्स जीटीएम सी प्राइवेट लिमिटेड, मकान नंबर –		▼. 21,10,005.10 /-	30-जून-2023				
П	404/21, हेरिटेज सिटी, सरहौल, गुड़गांव 122002,	हेरिटेज सिटी, फेज–2 गुड़गांव 122002	(रुपये इक्कीस	18—जुलाई—2023				
П	अन्य पता : श्रीमान राहुल चौधरी, मकान नंबर–404/21, हेरिटेज सिटी, सरहौल, गुडगांव		लाख दस हजार	₹. 2,50,00,000 / -				
П	122002. अन्य पता : मैसर्स जीटीएम कंसिन्टिंग		पांच एवं दस पैसे मात्र)	(रुपये दो करोड़ पचास				
П	प्राइवेट लिमिटेड, अपार्टमेंट नं. 404, चतुर्थ तल,		पस मात्र)	लाख मात्र)				
П	ब्लॉक-21, हेरिटेज सिटी, फेज-2, गुड़गांव 122002							

एतहवारा उक्त परिस्थितियों में उक्त ऋणधारकों, सह—ऋणधारकों एवं / अथवा उनके गारंटरों (जहां भी लाग हो) को सचित किया जाता है कि इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के व्याज तथा यथालागू सुन्कों के साथ उपरोक्त बनाय राशि का गुनाना करें, अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की साथ उपरोक्त बनाय राशि का गुनाना करें, अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिनर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत यथालागू नियमावली के अंतर्गत ऋणधारकों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभृति परिसम्पत्तियों पर अधिग्रहण करने सहित प्रतिभृति परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाइयों की जावेंगी। आपका ध्यान सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है, जिसमें आप जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी करने अथवा निजी संधि के द्वारा प्रतिभूति परिसम्पत्ति(यों) की बिकी के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि यदि बैंक द्वारा वहन की गई लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान, जनता से कोटेशन व निविदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी के आयोजन या निजी संधि द्वारा प्रतिमृत परिसम्पत्तियों की बिक्री सूचना के

बकाय तथा का नुरातान, जर्मता के जरहरा पे नामच्या आमात्रय कर सावानांक मालामा का आयाजा या निजा साथ द्वारा प्रातमूत पारसन्यासया का बिका सूचना क्रमाया से पूर्व, नहीं किया जाता है तो आप प्रतिमृत परिसम्पत्ति(यों) को विमोधित करने के लिये अधिकृत हो होंगे। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की बारा 19(13) के अंतर्गत, प्रतिमृति ऋण्याता की पूर्व लिखित सक्मित प्राप्त किये बिना कोई भी ऋण्यारक इस सूचना मे संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।

दिनांक : 09—08—2023 स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सूचना

मेरे मवक्किल संजय कुमार मित्तल, सज्ज ोयल तथा अन्य राजस्व ग्राम लुहरली, तहसीत दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, उँप्र. स्थित विभिन्न बसरा में 81346 वर्ग मीटर परिमाप की सम्पूण जमीन क्रय करने के लिए मैसर्स वेदा फाउंडेशन अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदल पंजीकृत कार्याल रस-344 ग्रेटर कैलाश भाग 1 नई दिल्ली 110048 के साथ क्रय हेतु एक अनुबंध किय है। ऊपर उल्लेखित जमीन के संबंध में मैसर्स वेदा फाउंडेशन के साथ सौदा करने वाले कोई भी व्यक्ति को इसकी जोखिम, लागत एवं दायित्व उठाना पड़ेगा। **सम्पर्क करें सज्जन गोयल** 9818230720

लि. द्वारा 09th & 10th August 2023 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 09 के 14 September 2023 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

ध्यान दें: नकली / कम शुद्धता वाले आभूषणों की नीलामी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

कोहली एण्ड सोब्दी एडवीकेट ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगरना, नई दिल्ली - 110024 नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे वलाइंट की बकाया राशि का सुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः recoverynorth@muthoolgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवब्किला श्रीमती जुलेखा खातून निर्मित संपत्ति संपत्ति संख्या पी-107, क्षेत्रफल माप 65 वर्ग. Yds. यानी 54.34 वर्ग. मीटर, अविभाजित अविभाज्य के साथ, भूमि में वन: मार दे, आवागाल जावागल के साथ, सूत्र म आनुपातिक स्वामित्व अधिकार, खसरा नंवर 193 में से गली नंवर 6 की आवादी में स्थित है, "शंकर नगर एक्सटेंशन" ग्राम घोंडली के क्षेत्र में, इलाक शाहदरन दिल्ली - 1005ों के मालिक हैं, श्री शेख मुस्लिम पुत्र श्री शेख लियाकत द्वारा श्रीमती के पक्ष में दिनांक 24.10.2019 को पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया। उक्त ग्रामि के मंत्रणे से जलेख लावन पत्री श्री भेक्र प्रक्रिया पंपत्ति के संबंध में जुलेखा खातून पत्नी श्री शेख मुस्लिम दस्तावेज़ सं-8348, खंड सं-2057, पुस्तक सं-1, पृष्ठ सं-56 से 65, दिनांक 28,10,2019, एसआर IV बी, विवेक विहार, हो 55, वित्ती थे 26, 1925) र स्विता में था, पियमे प्रतिह हिल्ली) और मेरी मुवविक्ता इसे फेडबैंक फाइनेशियल सर्विसेका लिमिटेड के पास गिरवी रखना चाहता है। किसी को भी इस पर कोई आपत्ति हैं बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहिला) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना

ाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है। वरुण फोगाट (एडवोकेट) 72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029 (07982557892) (varunphogaat@gmail.co



"The Fact of the Matter."



f beindia 💟 beindi

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स. 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अनिल कुमार प्रॉपराइटर अनिल कुमार एंड सन्स और सिमरन को 16.06.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHEROH00400284 की राशि रू.16,50,636.40 /- (रुपए सोलह लाख पचास हजार छ सौ छत्तीस और चालीस पैसे मात्र) और 13.06.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 05.08.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है। विशोषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.16,50,636.40 /- (रुपए सोलह लाख पचास हजार छ सौ छत्तीस और चालीस पैसे मात्र) 13.06.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के प्राथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति युआईडी नं. 608, मकान नं. 79, जमीन एरिया मापित 170 स्के.यार्डस, बिल्ट अप एरिया मापित 630 स्के.फीट, वार्ड नं.9 में स्थित, मोहल्ला हरिपुरा, राम मंदिर के सामने, झज्जर -124101, हरियाणा, जो निम्ननंसार परिबद्ध है:-

पर्व: अशोक कमार का मकान उत्तर :लक्ष्मण दास का मकान दिनांक:05.08.2023

स्थान : झज्जर

जब कि.

पश्चिम: लक्ष्मण दास का मकान दक्षिण: गली

प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेत)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार <mark>श्रीमती आरती गुप्ता और श्री अमित मोहन गुप्ता</mark> को 29.11.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLRHN00294609 की राशि रू..17,76,382.47/- (रुपए संत्रह लाख छिहत्तर हजार तीन सौ बयासी और सैंतालीस पैसे मात्र) और 11.11.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 04.08.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.17,76,382.47/- (रुपए सत्रह लाख छिहत्तर हजार तीन सौ बयासी और सैंतालीस पैसे मात्र) 11.11.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

बिल्ट अप संपत्ति प्लॉट नं.ए- 22, दुसरी मंजिल, रूफ राइट्स के बिना (पीछे की ओर/उत्तरी भाग) (एस/जी + युजीएफ + 3 संरचनाए), मापित एरिया 50 स्के.यार्डस यानि 41.81 स्के.मी. गली नं.2 ब्लॉक -ए, खसरा नं.104/1 में से, गाँव -पालम कॉलोनी, राजा पुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

दिनांक:04.08.2023 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

DCB BANK

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

अधोहस्ताक्षरी ने डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और पनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना तालिका में वर्णितानुसार जारी की थी, जिसमें कर्जदारों, सह—कर्जदारों, गारंटर से सूचना में वर्णित राशि, जिसका विवरण यहां नीचे तालिका में दिया गया है, का भृगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार तथा सह–कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार, सह–कर्जदार/गारंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

को विशेष रूप से तथा तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार डीसीबी बैंक लिमिटेड की मांग सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि तथा उस पर आगे ब्याज अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	अनुबंध सं.	कर्जदार, सह—कर्जदार, गारंटर एवं कानूनी वारिस का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का वर्णन	कब्जा की तिथि
1.	DRHLNO100447567, DRBLAGR00558429 तथा DRBLAGR00524373	नागेन्द्र सिंह चौहान तथा कुमारी मधुबाला	15-03-2023 / रू. 20,33,515.62 / - 15-03-2023 तक बकाया	आवासीय सम्पत्ति स्थित मकान नंबर ई–58, खसरा नंबर 41–46, 48–51, 53 पार्ट, 54 एवं 58–61, मारुति प्रवाशम नगला काली, तहसील एवं जिला आगरा, उत्तर प्रदेश–282001	05-08-2023
2	DRHLDEH00436465	फुरकान, मोहम्मद अफसान और मुबसारा	10-05-2023 / रू. 17,91,269.50 / - 10-05-2023 तक बकाया	खसरा नंबर 596 के भाग पर द्वितीय तल पर सम्पूर्ण पलैट, स्थित मौजा तरला नागल, सहस्त्रधारा रोड, परगना परवा दून, देहरादून, उत्तरांचल–248001	04-08-2023
3.	DRHLAGR00565718	विशाल वशिष्ठ और मीनू वशिष्ठ	12-07-2023 / रू. 21,78,097 / - 12-07-2023 तक बकाया	आवासीय फ्लॅट नंबर 309, तृतीय तल, राजावत अपार्टमेंट, खसरा नंबर 1060, 1017 एवं 1009 पर निर्मित, श्री राम विहार गुम्मट, हरिपर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश—282004	04-08-2023

dishti/

स्थान : आगरा, देहरादन

Matcho

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

DISH TV INDIA LIMITED

Corporate office: FC-19, Sector-16A, Noida-201 301 (U.P) Read, Office: 803, 8th Floor, DLH Park S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai – 400062, Maharashtra CIN: L51909MH1988PLC287553. Tel.: 0120-5047005/5047000. Fax: 0120-4357078 E-mail: investor@dishd2h.com. Website: www.dishd2h.com

Extract of statement of standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2023

(Rs. In Lacs)

Particulars	Standalone Consolidated							
	Quarter ended Year ended		Quarter ended			Year ended		
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
1. Total income from operations	23,640	24,426	31,386	110,973	50,016	50,482	60,863	226,185
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	307	(869)	3,146	2,239	2,774	(23,373)	2,355	(18,051)
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	307	(221,498)	3,146	(218,390)	2,774	(214,134)	2,355	(208,812)
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		(205,417)	2,380	(202,963)	2,054	(172,062)	1,785	(168,354)
5. Total comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive		(205,308)	2,371	(203,019)	2,033	(171,946)	1,794	(168,441)
income (after tax)]								
6. Equity Share Capital	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413
7. Other Equity	-	-	-	(137,049)	-	-	-	(97,286)
8. Basic and diluted earnings per share (for continuing and discontinued operations) of Re. 1 each (not annualised) (In Rs.)	0.01	(10.68)	0.12	(10.55)	0.11	(8.94)	0.09	(8.75)

1.The above information is an extract of the detailed format of financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.dishd2h.com.

2. This financial result has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), the provisions of Companies Act, 2013 (the Act), as applicable and guidelines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI).

For and on behalf of the Board of Directors **DISH TV INDIA LIMITED**

Mr. Shankar Aggarwal

Independent Director

DIN: 02116442

उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. ङ्काईः पिपराईच (गोरखपुर) २७३१५२ Ref. No. PIP/2023-24/निविदा/384

ई - निविदा सूचना इस मिल के सत्र 2023-24 हेत् निम्न के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: तकनीकी बिड्स धरोहर धनराशि निविदा की अन्तिम तिथि खोलने की तिथि 21.08.2023 Supply of Process Chemical for 21,08,2023 75,000/-Sugar Mill Season 2023-24 अपरान्ह 2:00 बजे तक शाम 4:00 बजे

नेविदा फार्म की फीस रु. 1180/- GST सहित, धरोहर धनराशि, मिल के इंडियन बैंक शाखा-पिपराईच के खाता संख्या 50537210018 एवं IFSC Code-IDIB000C503 मे जमा करके निविदा फार्म अपलोड किया जा सकता है। किसी भी एक ई-निविदा अथवा समस्त ई-निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सरक्षित रहेगा।

अन्य विवरण वेबसाइट etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। **संपर्क अधिकारी-प्रभारी, मुख्य** रसायनज्ञ, मो. 6389025583, क्रय प्रभारी मो. 6307854509 प्रधान प्रबन्धक

कब्जा सूचना

ाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एव नर्निर्माण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग म धारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) को **मांग सूचनाएँ** जारी कर उधारकर्ताओं को उनके ामों के विरुद्ध देय राशि, लागू ओकर्स्मिक खर्चों के रूप में भविष्य के ब्याज के साथ, लागत तान और/या वसूली की दिनांक तक किए गए शुल्क आदि के साथ के साथ उक्त सूचना की प्ती से **६० दिनों** के भीतर चकाने के लिए कहा गया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) सूचना दिनांक/ बकाया देय (रूपये में) तक	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार					
1	30809420000281	(1) मोहम्मद आमीर (आवेदक), (2) श्रीमती रानी परवीन (सह – आवेदक)	08.05.2023 रू. 12,88,106/— (रुपये बाराह लाख अद्यासी हजार एक सौ छह मात्र) दिनांक 04.05.2023 तक	दिनांक 08.08.2023 समय : पूर्वाह्न 11:45 बजे सांकेतिक कब्जा					

<u>प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण :</u> फ्लैट सं. सी–2, ब्लॉक सी, दुसरा तल, प्लॉट सं. 84, कुल क्षेत्र 52 वर्ग गज, शंकर विहार कॉलोनी, ग्राम छिपियाना बुजुर्ग, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध गर, उत्तर प्रदेश, **मोहम्मद आमीर, पुत्र मोहम्मद आबिद** द्वारा स्वामित्व,**सीमांकन प्रकार : पूर्व :** 18 फुट चौड़ा रास्ता, **पश्चिम :** अन्य का प्लॉट, **उत्तर :** अन्य का प्लॉट, **दक्षिण :** रिक्त भूमि

बिक, ऊपर उल्लेखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, देय राशि चुकाने में वेफल रहे हैं, एतद् द्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित उंघारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के योग में उपरोक्त दिनांकों पर उपर्युक्त यहां वर्णित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का **सांकेतिक ठब्जा कर लिया है।** विशेष रूपसे ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं/ सह–उधारकर्ताओं, ।रंटरों / बंधककर्ताओं और आम जनता को सामान्य रूप से एतद द्वारा उपर्यक्त संपत्तियों / प्रत्याभत रिसंपत्ति से कोई भी व्यवहार करने से आगाह किया जाता है और उक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत रिसंपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : दिल्ली एनसीआर हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांक : 09.08.2023



ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड़, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चलाघट्टा बेंगलोर-560071<u>. शाखा कार्यालय</u>: 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू, ई.ए., आर्या समाज रोड़, जरोल बाग, नई दिल्ली—1 10005



CHL LIMITED



Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025 Tel.: 91-11-26835070, 47808080 Fax: 26836288 E-mail: chl@chl.co.in Website: www.chl.co.in

NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

44[™] ANNUAL GENERAL MEETING:

NOTICE is hereby given that:

The 44th AGM will be held on Thursday, 31st August, 2023 at 03:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 10/2022 dated 28.12.2022 and in continuation of General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020 and General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and without the

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18

physical presence of the Members at a common venue.

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Listing Regulation, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) and in terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the 44th AGM and Annual Report 2022-23 including the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the year ended 31st March, 2023 ("Annual Report 2022-23") has been sent on or before 07th August, 2023 by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of 44th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report including 44™ AGM Notice is also available on the Company's website at www.chl.co.in and website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com respectively. The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL)/National Securities Depository Limited (NSDL) for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.

2. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 24th August, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary Business / Special Business, as set out in the Notice of 44th AGM electronic voting system ("remote e-voting") of CDSL/NSDL. All the Members are informed that:

(i) The Ordinary/Special Business, as set out in the Notice of 44th AGM will be transacted through voting by electronic means:

(ii) The remote e-Voting shall commence on Monday, 28th August 2023 at 10:00 A.M. IST;

(iii) The remote e-Voting shall end on Wednesday, 30th August 2023 at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL after 05.00 p.m. IST on 30th August 2023.

(iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 44th AGM, is 24th August, 2023: (v) Any person, who becomes Member of the Company after sending the

Notice of 44th AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 24th August, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

(vi) In case of any queries or issues regarding attending AGM / e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting manual available at www.evotingindia.com under help section. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type Helpdesk details Individual Shareholders

holding securities in

Members facing any technical issue in login can contact CDSL Demat mode with **CDSL** helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. Members facing any technical

Individual Shareholders holding securities in

issue in login can contact NSDL Demat mode with NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

(vii) Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with Company, by email to Company email id: cs@chl.co.in./ e-mail to RTA e-mail id: beetalrta@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

3. The Company has appointed M/s A. Chadha & Associates, Practicing Company Secretary, C.P. No. 3732, as the Scrutinizer to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

4. Pursuant to section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 25th August 2023 to Thursday, 31th August 2023 (both days inclusive).

> For CHL LIMITED **Dinesh Kumar Maurya**

Date : August 08, 2023 Place : New Delhi

Company Secretary

Place: Noida Dated: 08 August 2023